



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालयराजस्व विभाग, / MINISTRY OF FINANCE, DEPTT. OF REVENUE

कार्यालय सहायक आयुक्त (राज) बीकानेर, सीमा शुल्क संभाग,

OFFICE OF THE ASSISTANT COMMISSIONER, CUSTOMS DIVISION, BIKANER (RAJ.)

चेतन महादेव मंदिर के सामने 334001-बीकानेर, जयपुर रोड,

OPPOSITE CHETAN MAHADEO TEMPLE, JAIPUR ROAD, BIKANER (RAJ)-334001

F.No.-I/(22)/OTH/509/2024

दिनांक:- 22-3-2024

सीमा शुल्क संभाग, बीकानेर के मुख्यालय कार्यालय एवं अधीनस्थ सीमा शुल्क रेंज चूरु के लिए हाउसकीपिंग कार्यों हेतु ई-निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति महोदय की ओर से सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क संभाग, चेतन महादेव मंदिर के सामने, जयपुर रोड, बीकानेर के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निम्नलिखित कार्यालयों में साफ-सफाई, पानी भरने एवं अन्य विविध हाउसकीपिंग सेवाओं हेतु वार्षिक अनुबंध के आधार पर अकुशल कामगार उपलब्ध करवाने के लिए अनुभवी, इच्छुक, प्रतिष्ठित एवं पंजीकृत सेवाप्रदाताओं/फर्मों से GeM द्वारा ऑनलाईन ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

2. कार्यक्षेत्र का पूर्ण पता एवं अनुमानित क्षेत्रफल आदि का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	कार्यालय का नाम व पता	अनुमानित कुल निर्मित एरिया	अनुमानित कुल रिक्त क्षेत्र
1	कार्यालय सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क संभाग, चेतन महादेव मंदिर के सामने, जयपुर रोड, बीकानेर	लगभग 8200 वर्गफीट	लगभग 16400 वर्गफीट
2	कार्यालय अधीक्षक, सीमा शुल्क रेंज, मौसम विभाग के पास, चूरु	लगभग 4700 वर्गफीट	लगभग 5700 वर्गफीट

3. निविदा सूचना के साथ निम्नलिखित दस्तावेज, पूर्ण विवरण के साथ, संलग्न हैं-

1	Terms and Conditions	Annexure-I
2	Scope of Work	Annexure-II
3	Technical Bid Undertaking	Annexure-III
4	Financial Bid Undertaking	Annexure-IV
5	Undertaking by the Bidder	Annexure-V
6	Tender Acceptance Letter	Annexure-VI

4. ई-निविदा के प्रपत्र एवं दस्तावेज मय दिनांक विभागीय वेबसाइट www.rajasthancustoms.gov.in एवं gem.gov.in पर उपलब्ध होंगे। निविदा निवेदन केवल GeM पोर्टल पर ऑनलाईन जमा की जाएगी। ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत करने या GeM पोर्टल से सम्बन्धित कोई भी समस्या के लिए GeM पोर्टल हैल्पडेस्क से सम्पर्क किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय से कोई भी पत्राचार नहीं किया जाएगा।

5. निविदाकर्ता को अनुलग्नक-I में उल्लेखित निबंधन एवं शर्तों एवं अनुलग्नक-II में उल्लेखित कार्य विस्तार विवरण का अनुसरण करना होगा। साथ ही अनुलग्नक-III एवं IV में तकनीकी एवं वित्तीय निविदा की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए अनुलग्नक-V एवं VI में क्रमशः अंडरटेकिंग एवं निविदा स्वीकृति पत्र निर्धारित प्रपत्र पूर्ण करके निविदा के साथ जमा करना होगा। निविदा दो भागों में स्वीकार की जाएगी - यथा तकनीकी एवं वित्तीय निविदा। निविदा ऑनलाईन अपलोड करने से पूर्व निविदा के सभी पृष्ठों पर पृष्ठ संख्या अंकित होनी चाहिए तथा सभी पृष्ठों पर निविदाकर्ता के हस्ताक्षर मय मोहर होना चाहिए। निविदा ऑनलाईन स्वीकार की जाएगी तथा अन्य किसी माध्यम से स्वीकार नहीं की जाएगी। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय से कोई भी पत्राचार नहीं किया जाएगा। निविदा दस्तावेजों को 100 डीपीआई पर ब्लैक एण्ड व्हाइट ऑप्शन के साथ स्केन किया जाए जोकि स्केन किए गए दस्तावेजों के आकार को कम करने में मदद करता है।

6. निविदाकर्ता को निविदा के साथ कॉन्ट्रैक्ट की कीमत के 5 प्रतिशत की अमानत राशि (EMD) का आहरण एवं वितरण अधिकारी (डीडीओ), सीमा शुल्क संभाग, बीकानेर को देय तथा किसी राष्ट्रीयकृत/वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी अकाउन्ट पेयि डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक जमा कराना होगा तथा